



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण 1931 (श0)  
(सं0 पटना 607) पटना, शुक्रवार, 4 दिसम्बर 2009

सं0 के / कारा / रा0प0-56 / 08—9783  
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

30 नवम्बर 2009

श्री नन्द किशोर सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, खगड़िया(सम्प्रति सेवा—निवृत्त) के विरुद्ध कारा महानिरीक्षक बिहार, पटना के पत्रांक 3810, दिनांक 26 जून 2008 के परिप्रेक्ष्य में श्री रंगनाथ पांडेय, सेवा—निवृत्त सहायक कारापाल पर विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के बावजूद उनका पेंशन कागजात महालेखाकार को अग्रसारित करने में निहित लापरवाही एवं दायित्व बोध के अभाव संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की जांच के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 8961, दिनांक 29 अगस्त 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर निदेशक (प्रशासन), कारा निरीक्षणालय को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. विभागीय कार्यवाही के उपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, संचिका में उपलब्ध आरोप, स्पष्टीकरण द्वितीय कारण पृच्छा एवं सुसंगत कागजात की सम्यक समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में श्री नन्द किशोर सिंह, सेवा—निवृत्त काराधीक्षक को निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है:-

(1) पेंशन से 5 (पांच) प्रतिशत कटौती ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 607-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>